



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 पौष 1931 (श0)  
(सं0 पटना 5) पटना, सोमवार, 4 जनवरी 2010

सं०3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-17/2009-12419/वि(2)  
वित्त विभाग

संकल्प

31 दिसम्बर 2009

विषय:- वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य के चतुर्थवर्ग के सरकारी सेवकों को 'साईकिल भत्ता' की पुनरीक्षित दर स्वीकृति के संबंध में ।

केन्द्रीय षष्टम वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों के वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण किया गया था । उक्त के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों की भाँति राज्यकर्मियों को पुनरीक्षित वेतन तथा भत्ते आदि पर सम्यक् अनुशंसा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा वेतन समिति का गठन किया गया ।

(2) राज्य सरकार द्वारा गठित वेतन समिति/त्रिसदस्यीय समिति की अनुशंसा पर सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार ने चतुर्थवर्ग के वैसे सरकारी सेवकों, जो डाक वितरण का कार्य करते हैं, को देय साईकिल भत्ता की दर पुनरीक्षित करते हुए रु0 60 (साठ) प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है । यह भत्ता उन्हीं कर्मचारियों को देय होगा जो निजी साईकिल का डाक वितरण के निमित्त उपयोग करते हैं । जिन्हे कार्यालय द्वारा साईकिल उपलब्ध कराई गई है उन्हें यह भत्ता देय नहीं होगा ।

(3) यह आदेश दिनांक 1 जनवरी 2010 से प्रभावी होगा ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
रबीन्द्र पवांर,  
सचिव (संसाधन) ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 5-571+500-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>